



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

18 आश्विन 1935 (श0)  
(सं0 पटना 807) पटना, बृहस्पतिवार, 10 अक्टूबर 2013

---

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

10 अक्टूबर 2013

सं0 नि० प्रा०/नि० 1-05/2012 खंड-I-1110—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा तत्काल **MEDN-UN18BG0400281** देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, बरौनी, बेगूसराय का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

और, चूँकि संघ की उपविधियों के अनुसार मतदाताओं द्वारा पहले प्रबंधकारिणी समिति के 12 (बारह) सदस्यों का निर्वाचन किया जायेगा एवं तत्पश्चात् उक्त निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य का निर्वाचन अध्यक्ष के रूप में पुनः संघ के मतदाताओं द्वारा किया जायेगा।

और, चूँकि बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
- उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।

- iv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।
- v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **परिशिष्ट-1** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार **देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, बरौनी, बेगूसराय** के प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों एवं अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु, सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु क्रमशः दिनांक 16.12.2013 (सोमवार) तथा दिनांक 28.12.2013 (शनिवार) की तिथियाँ नियत करता है तथा संघ के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन संघ के प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों एवं अध्यक्ष को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-1024 दिनांक 16.09.2013 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.08.2013 निर्धारित की गयी है।

निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंध समिति के सदस्यों एवं अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए संलग्न प्रपत्र-1 (**परिशिष्ट-2 एवं परिशिष्ट-3**) में अलग-अलग सूचना दिनांक 19.11.2013 को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन हो जाने के पश्चात् प्राधिकार द्वारा विहित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकेंगे एवं सविरोध निर्वाचन की स्थिति में दिनांक 28.12.2013 को संघ की मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं द्वारा विधिमान्य रूप से नामांकित सदस्यों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जायेगा।

देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, बरौनी, बेगूसराय के निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को संलग्न प्रपत्र-2 में तथा निर्वाचन की तिथि को संलग्न प्रपत्र-3 में पूर्ण सूचनायें उन्हीं तिथियों को फैक्स (0612-2231562, 2215089) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,  
फूल सिंह,  
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

**परिशिष्ट-1**

**MEDN-UN18BG0400281** देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी  
संघ लि०, बरौनी, बेगूसराय के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

**प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य पद के लिए निर्वाचन कार्यक्रम**

सूचना का प्रकाशन	19.11.2013 (मंगलवार)
नामांकन की तिथि	05.12.2013 (बृहस्पतिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
संवीक्षा की तिथि	06.12.2013 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से लगातार
अभ्यर्थिता वापसी की तिथि	07.12.2013 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
मतदान, अगर आवश्यक हो	16.12.2013 (सोमवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक
मतगणना	16.12.2013 (अपराह्न 3-4 बजे से)

**अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन कार्यक्रम**

सूचना का प्रकाशन	19.11.2013 (मंगलवार)
नामांकन की तिथि	17.12.2013 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक
संवीक्षा की तिथि	17.12.2013 (मंगलवार) 1 बजे अपराह्न से 3 बजे अपराह्न तक
अभ्यर्थिता वापसी की तिथि	17.12.2013 (मंगलवार) 3 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक
मतदान, अगर आवश्यक हो	28.12.2013 (शनिवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक
मतगणना	28.12.2013 (अपराह्न 3-4 बजे से)

## परिशिष्ट-2

**MEDN-UN18BG0400281 देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी  
संघ लि०, बरौनी, बेगूसराय के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम**

## प्रपत्र-1

## सूचना का प्रपत्र

(प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए)

देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, बरौनी निबंधन संख्या .....  
पता .....के प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.....  
को किया जाना है,

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-

(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

## आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या ..... है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.
प्राधिकार की अधिसूचना में सन्निहित निदेशों के अनुसार उल्लेख करें।	

(ii) नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर  
(स्थान का नाम)

सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता

(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

(स्थान का नाम)

है। नामांकन पत्र दिनांक ..... बजे पूर्वाह्न से प्रस्तुत किया जा सकता है।

(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तक .....  
.....बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....पर ..... बजे पूर्वाह्न से .... बजे

(स्थान का नाम)

अपराह्न तक की जायेगी।

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक..... को ..... बजे पूर्वाह्न से ..... बजे अपराह्न के  
पूर्व तक .....पर दाखिल की जा सकती है।

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 07 बजे पूर्वाह्न से 02 बजे अपराह्न तक होगा।

(vii) मतदान केन्द्र ..... (पूरा पता) में अवस्थित होगा।

(viii) मतगणना दिनांक.....को .....बजे से.....पर की जायेगी।

(स्थान का नाम)

स्थान-

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

## परिशिष्ट-3

**MEDN-UN18BG0400281 देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी  
संघ लि०, बरौनी, बेगूसराय के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम**

## प्रपत्र-1

## सूचना का प्रपत्र

(अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए)

देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, बरौनी, निबंधन संख्या ..... ,  
पता ..... के अध्यक्ष का निर्वाचन दिनांक.....  
को किया जाना है। अध्यक्ष का चुनाव प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचित सदस्यों के बीच से संघ के मतदाताओं द्वारा किया  
जायेगा।

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-  
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

## आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 01 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.
प्राधिकार की अधिसूचना में सन्निहित निदेशों के अनुसार उल्लेख करें।	01

(ii) नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर  
(स्थान का नाम)

सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता  
(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) (स्थान का नाम)

है। नामांकन पत्र दिनांक ..... बजे पूर्वाह्न से .... बजे मध्याह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।  
(नामांकन पत्र दाखिल की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तक .....  
.....बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....पर ... बजे मध्याह्न से ... बजे  
(स्थान का नाम)

अपराह्न तक की जायेगी।

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को ..... बजे अपराह्न से ..... बजे अपराह्न के पूर्व  
तक .....पर दाखिल की जा सकती है।

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 07 बजे पूर्वाह्न से 02 बजे अपराह्न तक होगा।

(vii) मतदान केन्द्र ..... (पूरा पता) में अवस्थित होगा।

(viii) मतगणना दिनांक.....को .....बजे से.....पर की जायेगी।  
(स्थान का नाम)

स्थान-

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

## प्रपत्र-2

**देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, बरौनी के निर्वाचन हेतु  
विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची**

जिला : ..... प्रखंड : .....

केन्द्रीय/ शीर्ष समिति का नाम, जिससे समिति ..... समिति का कार्य .....

संबद्ध है : ..... विवरण: .....

अंतिम प्रकाशित सूची के ..... संवीक्षा की तिथि: DD/ MM/ YYYY

अनुसार मतदाताओं की कुल ..... संख्या : .....

समिति का नाम : .....

क्रमांक	अध्यक्ष पद	महिला/ पुरुष	आरक्षण कोटि*	अभ्युक्ति

\* अनु० जाति/ अनु० जनजाति/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग/ सामान्य

	प्रबंधकारिणी समिति के विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची				अभ्युक्ति
	अनु० जाति/ अनु० जनजाति कोटि	पिछड़ा वर्ग कोटि	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि	सामान्य कोटि	
कुल पदों की संख्या (अध्यक्ष/ मंत्री/उपाध्यक्ष/ सचिव को छोड़कर)					
कुल (पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या)					
कुल (महिला)					

अभ्यर्थियों की संख्या)					
कुल अभ्यर्थियों की संख्या					

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

## प्रपत्र-3

देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, बरौनी के निर्वाचित सदस्यों की सूची

जिला : ..... प्रखंड : .....  
 कुल मतदाताओं की ..... मतदान करने वाले मतदाताओं .....  
 संख्या : ..... की संख्या : .....  
 समिति का नाम : ..... निर्वाचन की तिथि : DD/MM/YYYY

पद	नाम	महिला/ पुरुष	आरक्षण कोटि*	अभ्युक्ति
अध्यक्ष				

\* अनु० जाति/ अनु० जनजाति/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग/ सामान्य

प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचित सदस्यों का नाम				अभ्युक्ति
अनु० जाति/ अनु० जनजाति कोटि	पिछड़ा वर्ग कोटि	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि	सामान्य कोटि	



कुल पदों की संख्या (अध्यक्ष/ मंत्री/उपाध्यक्ष/ सचिव को छोड़कर)				
कुल (निर्वाचित पुरुष सदस्यों की संख्या)				
कुल (निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या)				
कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या				

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 807-571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>